

RAJASTHAN OLIVE CULTIVATION LIMITED

State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018
Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506
E:mail rocl@rajolive.com



Bid Document for Rate Contract for Agri inputs.

मन मोहन शर्मा
Accountant
ROCL

पूनम शर्मा
सहायक कृषि अधिकारी

(M. L. Verma)
Manager (ED), ROCL

योगेश वर्मा
चीफ आपरेशन आफिसर

निविदा सारांश

1	मुख्यालय	राजस्थान ऑलिव कल्टिवेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा – जयपुर 302018 दूरभाष : 0141-2554106, फ़ैक्स :- 0141-2553506
2	कार्य स्थल	सेन्टर ऑफ़ एकसीलेन्स, बस्सी, जयपुर
3	निविदा कार्य	राजस्थान ऑलिव कल्टिवेशन लिमिटेड के सेन्टर ऑफ़ एकसीलेन्स, बस्सी, जयपुर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न कृषि सम्बन्धित सामग्री के क्रय करने हेतु दर संविदा का कार्य।
4	निविदा शुल्क	रू0 300 / 200 (Non Refundable)
5	निविदा की अनुमानित कुल लागत	संलग्न निविदा प्रपत्र के अनुसार
6	बयाना राशि 2 प्रतिशत	नियमानुसार
7	अमानत राशि 5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
8	फार्म मिलने की दिनांक	26.02.2018 से
9	फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक स्थान	06.03.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय राजस्थान ऑलिव कल्टिवेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा-जयपुर 302018
10	निविदा खोलने की दिनांक	06.03.2018 अपरान्ह 03.00 बजे

मन मोहन सिंघा
Accountant
ROCL


सहायक कृषि अधिकारी


(M. L. Verma)
Manager (ED), ROCL


योगेश वर्मा
धीफ आपरेशन आफिसर

राजस्थान ऑलिव कल्टिवेशन लिमिटेड

राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा-जयपुर 302018

कार्य का नाम :- राजस्थान ऑलिव कल्टिवेशन लिमिटेड के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्सी, जयपुर पर वित्तिय वर्ष 2018-19 में विभिन्न कृषि सम्बन्धित सामग्री के क्रय करने हेतु दर संविदा का कार्य।

1. निविदादाता का नाम मय पूर्ण पता व दूरभाष/फैक्स नम्बर/मोबाईल नं.

.....
.....

2. निविदादाता की पात्रता :-

- किसी भी फर्म/कंपनी के द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। निविदादाता का पहचान पत्र, रजिस्ट्रेशन नं., GST NO. COPY, Last three year income Tax return व पैन नं० की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

3. निविदा सूचना संख्या क्रमांक प. ()/आर.ओ.सी.एल./2017-18/.....दिनांक मैं/हम वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसे समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत/बाध्य हैं।

4. हम अपनी न्यूनतम सेवा शुल्क वित्तिय निविदा प्रपत्र में अंकित करते हैं।

5. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की ?

6. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम एवं पता

.....

7. साझेदारी की स्थिति में साझेदारों के नाम पता (पार्टनरशिप डीड के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)

.....

8. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी फर्म में स्थिति -

.....

9. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई भविष्य में पत्र व्यवहार करे तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसकी फर्म में स्थिति अंकित करें।

.....

10. निविदा फार्म शुल्क की रकम 200/300 रूपये रोकड रसीद संख्या ----- दिनांक ---- डी.डी. संख्या ----- दिनांक ----- से जमा करा दी गई है।

11. बयाना राशि रूपये रु. नकद /ड्राफ्ट संख्या/ रोकड रसीद संख्या ----- दिनांक ----- नाम बैंक ----- जो राजस्थान ऑलिव कल्टिवेशन लिमिटेड के नाम बनाया गया, संलग्न है।

म. ल. वर्मा
Accountant
ROCL

श्री
सहायक कृषि अधिकारी


(M. L. Verma)
Manager (S.D), ROCL

योगेश वर्मा
धीफ आपरेशन आफिसर

12. निविदायें / दरें निर्धारित दिनांक को दोपहर 2.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं / दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में निविदाओं को निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को कार्यादेश से पूर्व अनुबंध के समय कम्पनी नियमानुसार (बयाना राशि सहित) अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। जिसको सन्तोषप्रद कार्य समाप्ति के पश्चात लौटा दिया जावेगा।
14. सफल निविदादाता को कार्यादेश से पूर्व कम्पनी नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा निविदा / दर संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
16. सफल निविदादाता द्वारा क्रय आदेश की मात्रा की सफल आपूर्ति नहीं करने पर कुल क्रय आदेश की मात्रा में शेष रही आपूर्ति के अनुसार आनुपातिक रूप से 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की पैनल्टी राशि की कटौति की जावेगी।
17. निविदादाता पूर्व में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग/उपक्रम द्वारा डिफाल्टर एवं दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए।
18. यदि निविदादाता/प्रतिनिधी के द्वारा कार्य / आपूर्ति / सेवा के दौरान कोई अपकृत्य/दुष्कृत्य किया जाता है तो उसके लिए निविदादाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा तथा ऐसे निविदादाता का कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है।
19. निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरे जाए। किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राइटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट-छांट ओवर राइटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।
20. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर इस बातको दर्शायेगा कि निविदाकार ने सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अतः निविदाकार को चाहिये कि सभी शर्तों को पढ़कर समझ ले। यदि किसी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में कंपनी के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।
21. निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाये तो उसे उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
22. भुगतान हेतु प्रेषित बिल में से नियमानुसार टैक्स काटकर ही भुगतान देय होगा।
23. निविदादाता की अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगी, जों कि आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है।
24. प्रत्येक कार्य / आपूर्ति / दर संविदा हेतु निर्धारित निविदाशुल्क, बयाना राशि जमा कराना आवश्यक है। एक निविदादाता समस्त आपूर्ति / कार्य हेतु दरें / निविदा प्रस्तुत एक ही आवेदन में कर सकता है।
25. किसी भी विवाद के लिये न्यायालय जयपुर होगा।
26. निविदा को निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार चीफ आपरेशन आफिसर को होगा।

म. ल. वर्मा
Accountant
ROCL


सहभाक व. ल. अधिकारी


(M. L. Verma)
Manager (E&D), ROCL


योगेश वर्मा
चीफ आपरेशन आफिसर

27. निविदा / दर संविदा की शर्तों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार के दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं हुये है तो उसकी व्याख्या मुख्यालय स्तर से की जायेगी।
28. निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग – अलग लिफाफे में मोहर बंद कर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा का वर्णन बन्द लिफाफे पर अंकित करना आवश्यक होगा। निविदादाता, निविदा पर अपना पूर्ण पता लिखेगा।
29. समस्त कार्यों में सभी तरह के व्यय निविदादाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
30. विवादास्पद मसलें पर विवादास्पद मदों के संबंध में कुल शेष राशि का भुगतान रोका जा सकेगा तथा विवाद निवृत्त होने पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु चीफ आपरेशन आफिसर द्वारा निर्णय किया जावेगा तथा यदि निविदादाता इस निर्णय से असहमत हैं तो प्रबंध निदेशक को इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। प्रबंध निदेशक, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड का निर्णय अंतिम होगा।
31. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के विपरीत अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त कम्पनी को मान्य नहीं होगी। दरें सशर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। दरें अंकों के साथ साथ शब्दों में भी स्पष्ट अंकित की जावे। निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य निविदादाता को देगा और ना ही किसी अन्य से लेगा (Sublet नहीं किया जावेगा)।
32. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सभी अवयव/सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त होने चाहिए।
33. अपरिहार्य कारणों से निश्चित समयावधि में कार्य निष्पादित नहीं करने पर समयावधि बढ़ाने का अधिकार चीफ ऑपरेशन ऑफिसर को होगा।
34. निविदा / दर संविदा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार से है :-

S.No.	Name of work	Estimated value of Input (in Lakh Rs.)	EMD in Rs.	Tender fee (Rs.)
1	Supply of Neem cake	3.00	6000	300
2	Supply of Cocopit	3.00	6000	300
3	Supply of PolyEthylene Plastic Sheet for Solarization	2.60	5200	300
4	Supply of Metam sodium 40%EC	2.60	5200	300
5	Supply of Plastic Mulch sheet	3.00	6000	300
6	Supply of Foggers	0.70	0.00	200
7	Supply of UV crop supporting thread	1.00	0.00	200
8	Supply of 1 mm thermocol ball	0.80	0.00	200
9	Supply of polybags	2.60	5200	300
10	Supply of Non woven sheets	0.30	0.00	200
11	Supply of HDG rod	0.80	0.00	200
12	JCB works and Tractor with scrubber/leveler	3.00	6000	300

मन मोहन शर्मा
Accountant
ROCL

पुनर्व श्री
सहायक कृषि अधिकारी

(M. L. Verma)
Manager (SD), ROCL

योगेश वर्मा
चीफ आपरेशन आफिसर

35. दर संविदा अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के संक्षिप्त तकनीकी स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार से है :-

नीम केक

1. नीम की खली दानेदार पिसी हुई होनी चाहिए।
2. नीम की खली में किसी भी तरह के मिट्टी, कंकड़-पत्थर, बजरी, रेत एवं अन्य खली/बाह्य पदार्थ आदि से मुक्त होनी चाहिए।
3. नीम की खली का रंग भूरे से काला होना चाहिए।
4. नीम की खली में नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. नीम की खली में न्यूनतम पोषक तत्व एवं 0.1 प्रतिशत एजाडिरेकटिन होने चाहिये। जिसकी आवश्यकता होने पर जाँच करवाई जा सकती है।

कोकोपीट

1. **Dimension of Block-** (+/-2cms) 30cms x 30 cms x 12 cms
2. **Unit weight of Block-** (+/-3%) 5 kgs
3. **EC -** <0.8 + - 0.1 (testing method 1:1:5)
4. **PH value -** 5.5- 6.5
5. कोकोपीट की ईसी की प्राथमिक जाँच सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्सी स्तर पर की जावेगी। ईसी में निर्धारित मापदण्डानुसार अधिकता होने पर नमूने की जाँच 2 प्रयोगशालाओं में निविदादाता के शुल्क पर करवायी जाकर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आनुपातिक भुगतान किया जायेगा।

Poly ethylene Plastic sheet


Thickness (Micron)	Tensile Strength (M.D.)	Tensile Strength (T.D.)	Elongation (M.D.)	Elongation (T.D.)	Dart Impact Strength	Width of Roll (Mtr.)	U.V. Stability (Month)
30	130	110	280	400	120	2/4	4

Metam Sodium (40 EC)

Property	State/ Appearance	Colour	Toxicity	Storage
Insecticide, Nematicide, Fumigation	Liquid	Yellow or White or brown	Adequate	At normal Condition


Plastic mulch sheet

Thickness (Micron)	Tensile Strength (M.D.)	Tensile Strength (T.D.)	Elongation (M.D.)	Elongation (T.D.)	Dart Impact Strength	Opacity (%)	Width of Roll (Mtr.)	U.V. Stability (Month)	Colour
30	130	110	280	400	120	98	1.2	12	Silver Black


Accountant
ROCL


पूनम श्री
सहायक कृषि अधिकारी


(M. L. Verma)
Manager (ED), ROCL


योगेश वर्मा
डीप आपरेशन आफिसर

Fogger

4 way, discharge 28 LPH with LPD

UV Stabilized crop supporting thread**1 mm thermacol balls****Poly Bags**

Thickness (Gauge)	Size
250	4x10x1x1 inch

Poly propylene non woven sheets for low tunnel 25 GSM (1.6 Mtr. X 625 Mtr.)


Hot Dip Galvanized (HDG) rod 6 mm dia meter & 2 meter length in the shape of half round

हस्ताक्षर


()

वास्ते

(फर्म का नाम एवं पूर्ण पता)


Accountant
ROCL


पुनम श्री
सहायक कृषि अधिकारी


(M. L. Verma)
Manager (GD), ROCL



योगेश वर्मा
डीफ आपरेशन आफिसर


INSTRUCTIONS TO BIDDER

1.	Scope of Bid	<p>1 In support of Invitation of Tender published by Rajasthan Olive Cultivation Limited, (ROCL) Jaipur vide letter No. ए. () ROCL/2017-18/..... Date.....</p> <p>2 Rate Contract for Agri inputs.</p> <p>3 The selected Bidder will be required to make the complete supply and arrangements to undertake various tasks, but not limited to, under the supervision and guidance of designated officers for successful completion of the cited event</p>
2	Eligible Bidders	<p>1. A Bidder may be Public entity, company, partnership firm, Propriety firm, Government owned entity etc.</p> <p>2. Bidder should: - (A Self Certified letter duly signed by the Auth. Signatory) not be insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and must not be the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons; not have, and their directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings; Not have a conflict of interest in the procurement in question as specified in the bidding document: comply with the code of integrity as specified in the bidding document.</p> <p>3. Bidder should submit</p> <ul style="list-style-type: none"> • (A Self Certified letter duly signed by the Auth. Signatory as per Annexure-1) • Pan Card Copy • GST No. Copy or Certificate regarding GST No. (If not have certificate) • Firm Registration Copy • Residence/Bonafied document of Proprietor • EMD amount • Last three year income Tax return, <p>4 Absence of above documents bid shall be treated as non responsive bid and treated as technical disqualified.</p>
3.	Qualification of Bidders	<p>1. All bidders shall provide documentary evidence as per requirement of bid document.</p> <p>2. One of the partners/representatives shall be authorized to be in charge and this authority shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by legally authorized signatory (ies) of the company or of all the partners as the case may be failing in that may lead to rejection of bid.</p>
4.	Changes in the Bidding Document	<p>1. At any time, prior to the deadline for submission of Bids, the procuring entity may for any reason, whether on its own initiative or as a result of a request for clarification by a bidder, modify the bidding documents by issuing an addendum.</p> <p>2. Any bidder, who has submitted his Bid in response to the original invitation, shall have the opportunity to modify or re-submit it, as the case may be, within the period of time originally allotted or such extended time as may be allowed for submission of Bids, when changes are made to the bidding document by the procuring entity.</p> <p>3. Provided that the Bid last submitted or the Bid as modified by the</p>



Accountant
 ROCL


 (M. L. Verma)
 Manager (ED), ROCL


(M. L. Verma)
 Manager (ED), ROCL


योगेश वर्मा
 चीफ आपरेशन आफिसर

		bidder shall be considered for evaluation.
5	Contents of Bidding Document	<ol style="list-style-type: none"> 1. The prospective bidders shall be permitted to download the bidding document from the websites and pay its price while submitting the Bid to the procuring entity. 2. The bidding documents shall be made available to any prospective bidder who pays the price for it in cash or by bank demand draft, banker's cheque. 3. Any prospective bidder may, in writing, seek clarifications from the procuring entity in respect of the bidding documents. 4. Bidding documents purchased by Principal of any concern may be used by its authorised sole selling agents/ marketing agents/ distributors/ sub-distributors and authorised dealers or vice versa. 5. The Invitation for Bids issued by the ROCL, Jaipur shall be a part of the Bidding Document. 6. ROCL shall not be responsible for incomplete Bidding Document. Failure to furnish all information or documentation required by the Bidding Document may result in the rejection of the Bid.
6.	Documents Comprising the Bid	<ol style="list-style-type: none"> 1. The bidder should ensure that all the required documents, as mentioned in this bidding document, are submitted along with the bid and in the prescribed format only. 2. Non-submission of the required documents or submission of the documents in a different format/ contents may lead to the rejections of the bid proposal submitted by the bidder. 3. ROCL is not in favour of seeking additional documents and/ or clarifications from the bidders after the last date of bid submission. Hence, bidders are advised to prepare and submit the bid accordingly and ensure that all the required documents are in place and in desired order. 4. Alternative/ Multiple bids shall not be considered at all. 5. Firstly, the bids shall be written in two parts. The two parts are to be marked as Technical Proposal and Financial Proposal respectively. In absence of proper markings on envelopes, there will be no extra advantage of being lowest offered rates. 6. Secondly, the above two parts shall be kept in a Master Envelope and sealed in case of bid submit through post or individually.
7	Bid Submission Sheets	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Bidder shall submit the Technical Proposal and the Financial Proposal using the prescribed Bidding Forms. These forms must be completed without any alterations to their format, and no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information requested. 2. All duties, taxes and other levies etc. payable by the bidder under the Contract, or for any other cause, shall be included in the rates and prices and the total bid price submitted by the bidder. (As per Financial Bid) 3. The rates and prices quoted by the bidder shall remain fixed and valid for the duration of the contract and would not be subject to variation on any account. 4. All prices shall be quoted by the Bidder only in Indian Rupees.
8	Period of Validity of Bids	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bids shall remain valid for a period of three months after the bid submission deadline date prescribed by the ROCL, Jaipur. It can be further extended by the ROCL after mutual consent. 2. Prior to the expiry of the period of validity of Bids, the procuring entity, in exceptional circumstances, may request the bidders to extend the bid validity period for an additional specified period of time. A bidder may refuse the request and such refusal shall be treated as withdrawal of Bid and in such circumstances bid security shall not be


Accountant
 ROCL


 पूनमी श्री
 सहायक कृषि अधिकारी


(M. L. Verma)
 Manager (ED), ROCL


योगेश वर्मा
 चीफ ऑपरेशन ऑफिसर

